

GOVERNMENT OF INDIA

दिल्ली राजपत्र  
Delhi Gazette



असाधारण  
EXTRAORDINARY

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 174]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, अगस्त 23, 2018/भाद्र 1, 1940	[ रा.रा.क्षे.दि. सं. 603
No. 174]	DELHI, THURSDAY, AUGUST 23, 2018/ BHADRA 1, 1940	[N.C.T.D. No. 603

भाग—IV  
PART—IV

राष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र, दिल्ली सरकार  
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

विधि, न्याय एवं विधायी कार्य विभाग  
अधिसूचना

दिल्ली, 20 अगस्त, 2018

सं. फा. 14(41)/एलए-2018/cons2law/54-63.—राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा के निम्नलिखित अधिनियम ने उप-राज्यपाल की सहमति दिनांक 16 अगस्त, 2018 को प्राप्त कर ली है और इसे जन साधारण की जानकारी के लिये प्रकाशित किया जाता है :—

**‘दिल्ली विनियोग (संख्या 03) अधिनियम, 2018  
(2018 का दिल्ली अधिनियम 05)**

(9 अगस्त, 2018 को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा यथा पारित)

[16 अगस्त, 2018]

वर्ष 2018-2019 से संबंधित कार्यों के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि से भुगतान प्राधिकृत करने तथा कुछ और राशि का विनियोजन करने के लिए एक विधेयक।

भारत गणराज्य के उनहत्तरवे वर्ष में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो:-

### संक्षिप्त शीर्षक

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम दिल्ली विनियोग (संख्या 3) अधिनियम 2018 है।

₹1347,04,48,000/-का वर्ष 2018-2019 में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि मेंसे प्रदत्त और प्रयुक्त

2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त राशि जो अनुसूची के कालम (5) में विनिर्दिष्ट से अधिक नहीं, जो कुछ प्रभारों की अदायगी के लिए तेरह सौ सैंतालिस करोड़ चार लाख अड़तालीस हजार रुपयों की कुल राशि के बराबर है, जो अनुसूची के कालम (2) में विनिर्दिष्ट कार्यों के सम्बन्ध में वर्ष 2018-2019 की अवधि के दौरान भुगतान के रूप में प्रयुक्त होगी।

### विनियोजन

3. इस अधिनियम द्वारा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार की संचित निधि में से प्रदत्त और प्रयुक्त किए जाने के लिए प्राधिकृत राशि उक्त अवधि के सम्बन्ध में अनुसूची में उल्लिखित कार्यों और उद्देश्यों के लिए विनियोजित की जायेगी।

### अनुसूची

(धारा 2 और धारा 3 देखिए)

(₹ हजारों में)

निम्नलिखित से अनाधिक राशियाँ

अनुदान संख्या	सेवाएं और प्रयोजन		विधानसभा द्वारा अनुदत्त	संचित निधि परभारित	योग
1	2		3	4	5
1	विधानमंडल	राजस्व	100	0	100
2	सामान्य प्रशासन	राजस्व	1042400	0	1042400
3	न्याय प्रशासन	राजस्व	51300	2400	53700
		पूँजी	150000	0	150000
4	वित्त	राजस्व	100000	12570	112570
5	गृह	राजस्व	10000	0	10000
6	शिक्षा	राजस्व	700	583	1283
		पूँजी	1500000	0	1500000
7	चिकित्सा एवं जनस्वास्थ्य	राजस्व	400500	9000	409500

		पूँजी	350000	0	350000
8	समाजकल्याण	राजस्व	43450	0	43450
9	उद्योग	राजस्व	0	0	0
10	विकास	राजस्व	47445	0	47445
11	शहरी विकास और लोकनिर्माण	पूँजी	9750000	0	9750000
	योग		<b>13445895</b>	<b>24553</b>	<b>13470448</b>

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के  
उप राज्यपाल तथा उनके नाम पर,

अनूप कुमार मेंहदीरत्ता, प्रधान सचिव

## DEPARTMENT OF LAW, JUSTICE AND LEGISLATIVE AFFAIRS

### NOTIFICATION

Delhi, the 20th August, 2018

**No. F.14(41)/LA-2018/cons2law/54-63.**—The following Act of the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi received the assent of the Lt. Governor of Delhi on the 16<sup>th</sup> August, 2018 and is hereby published for general information:—

### “THE DELHI APPROPRIATION (NO.3) ACT, 2018

(DELHI ACT 05 OF 2018)

(As passed by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi on the 09<sup>th</sup> August, 2018)

[16<sup>th</sup> August, 2018]

An Act to authorize payment and appropriation of certain further sums from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the services in respect of the financial year 2018-2019.

BE it enacted by the Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in the Sixty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

Short title.	1.	This Act may be called the Delhi Appropriation (No.3) Act, 2018.
Issue of ₹1347,04,48,000/-from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi for the financial year 2018-2019.	2.	From and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory of Delhi, there may be paid and applied further sums not exceeding those specified in column(5) of the Schedule, amounting in the aggregate to the sum of Rupees Thirteen Hundred Forty Seven Crore Four Lakh Forty Eight Thousand only towards defraying the several charges which will come in the course of payment during the financial year 2018-2019 in respect of the services specified in column(2) of the Schedule.

<b>Appropriation.</b>	3.	The sums authorised to be paid and applied from and out of the Consolidated Fund of the National Capital Territory Delhi by this Act, shall be appropriated for the services and purposes expressed in the Schedule in relation to the said year.
-----------------------	----	---

### THE SCHEDULE

(See sections 2 and 3)

(₹ In thousands)

#### SUMS NOT EXCEEDING

Demand No.	Services and Purposes		Voted by the Legislative Assembly	Charged on the Consolidated Fund	Total
I	II		III	IV	V
1	Legislative Assembly	Revenue	100	0	100
2	General Administration	Revenue	1042400	0	1042400
3	Administration of Justice	Revenue	51300	2400	53700
		Capital	150000	0	150000
4	Finance	Revenue	100000	12570	112570
5	Home	Revenue	10000	0	10000
6	Education	Revenue	700	583	1283
		Capital	1500000	0	1500000
7	Medical and Public Health	Revenue	400500	9000	409500
		Capital	350000	0	350000
8	Social Welfare	Revenue	43450	0	43450
9	Industries	Revenue	0	0	0
10	Development	Revenue	47445	0	47445
11	Urban Development and Public Works	Capital	9750000	0	9750000
	<b>Total</b>		<b>13445895</b>	<b>24553</b>	<b>13470448</b>

By Order and in the Name of Lt. Governor  
of National Capital Territory of Delhi,  
ANOOP KUMAR MENDIRATTA, Pr. Secy.